

15-11-22 वकील उममपदा उप-1 वाफि अहम
पत्रावली दि. 25-11-22 को पेश है।

25-11-22 वकील उममपदा उप-1 वाफि अहम
पत्रावली दि. 28-11-22 को पेश है।

28-11-22 वकील उममपदा उप-1 वाफि अहम
पत्रावली दि. 2-12-22 को पेश है।

2-12-22 वकील उममपदा उप-1 वाफि अहम
की ओर से लिखित अहम पत्रावली को गद्दी इन्फॉर्मल
पत्रावली लिखित अहम पत्रावली अहम को समझावात
वाफि लिखित अहम पत्रावली दि. 6-12-22 को
पेश है।

6-12-22 वकील उममपदा उप-1 वाफि अहम सुनीर्षी
वकील या थी जग नै लिखित अहम भी प्रस्तुत की है। वास्तुनिर्णय
पत्रा- दि. 13-12-22 को पेश है।

13-12-22 वकील उममपदा उप-1 समझावात के कारण निर्णय
नही लिखा जा सका। वास्तु निर्णय पत्रा- दि. 26-12-22 को
पेश है।

26-12-22 वकील उममपदा उप-1 अयाधी लं-2 द्वारा यादुवा
काउन्टर क्लेम वावत कामथी विधीनी इन्फॉर्मल अहम दिमा माता
अहं या थी जग द्वारा प्रस्तुत या थी ना पत्र अहम दि निषेधाज्ञा अहम
दिमा जाता है। विस्तृत निर्णय पत्रावली से लिखा जाक शास्त्रि पत्रावली
दिमा जाक। पत्रावली के अहम सुमार ठेका तांवर से कम है अहं
वास्तुनिर्णय पत्रा- दि. 26-12-22 को पेश है।



पत्नी-

दि

की

की

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगपुर सिटी जिला सर्वाई माधोपुर मुकदमा नम्बर

30/2019

तारीख रजू

27.5.2019

तारीख निर्णय

26.12.2022

1. रामकिशन पुत्र कन्हैया
2. रूपसिंह पुत्र किल्या
3. काडू पुत्र किल्या
4. राधेश्याम पुत्र छगन
5. हरिमोहन पुत्र छगन
6. मुन्शी पुत्र छगन
7. सुरज पुत्र छगन

जाति माली
निवासी खानपुर बडौदा
ढाणी पैमापुरा
तहसील गंगपुर सिटी

8. प्रेम पुत्री छगन पत्नी श्रीफूल जाति माली निवासी अमरगढ चौकी
9. केशूली पुत्री छगन पत्नी राधेश्याम जाति माली निवासी अमरगढ चौकी
10. उर्मिला पुत्री छगन पत्नी महेश जाति माली निवासी चिरौली —प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगपुर सिटी
2. मूर्ति श्री गोविन्द देव जी महाराज विराजमान धूधेश्वर ग्राम चुली जरिए संरक्षक वाद मित्र शंकर लाल दत्तक पुत्र माखनदास जाति ब्राह्मण निवासी धूधेश्वर चूली —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री परमानन्द शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं० 2 की ओर से

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मन्दिर श्री गाविन्द देव जी महाराज विराजमान चूली की खातेदारी की भूमि बन्दोबस्त संवत् 2008 लगायत 11, खसरा नंबर 761 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 815/2 रकबा 13 बिस्वा, 818 रकबा 1 बीघा 3 बीस्वा कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा ग्राम खानपुर बडौदा में स्थित है जिस पर संवत् 2008 में उपकृषक के रूप में प्रार्थी संख्या 1 के पिता तथा प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के बाबा कन्हैया पुत्र पांच्या जाति माली निवासी खानपुर बडौदा उक्त भूमि के उपकृषक दर्ज थे तथा संवत् 2008 से पहले से ही उक्त भूमि पर कन्हैया का कब्जा चला आ रहा था। संवत् 2012 में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत उक्त भूमि को खालसा दर्ज कर राज्य सरकार द्वारा मन्दिर के हक में एवं मन्दिर के भोग विलास एवं अन्या खर्चों के लिये ऐन्वूटी जारी कर दी गयी एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत उक्त भूमि का खातेदार प्रार्थी संख्या 1 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 9 के बाबा कन्हैया की दर्ज कर दिया जीवन पर्यन्त उक्त भूमि पर बतौर खातेदार कन्हैया

पुत्र पांच्या काशत करते रहे है तथा उनके मरने के बाद प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काशत करते चले आ रहे है। एकीकरण मे उक्त भूमि के नंबर 419 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा कायम किए हैं जिस पर खातेदारी कन्हैया पुत्र पांच्या के नाम बदस्तुर दर्ज रही है। वर्तमान सेटिलमेंट में एकीकरण खसरा नंबर 419 के नये नंबर 920 रकबा 0.30 हेक्टर, 921 रकबा 0.60 हैक्टर कायम किये है लेकिन सेटिलमेंट विभाग वालो द्वारा बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का मौका दिये बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि को मन्दिर श्री गोविन्देव जी के नाम दर्ज कर दिया जबकि भूमि मन्दिर कि खातेदारी की नही थी तथा भूमि उपकृषक जो कि मन्दिर का सेवारत पुजारी नही था के खातेदारी में दर्ज थी ऐसी स्थिती में भूमि उपकृषक के नाम दर्ज होने के बाद पुनः उसे मंदिर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता था लेकिन सेटिलमेंट विभाग वालो ने गलत रूप से बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण की भूमि को मंदिर के नाम दर्ज कर दिया। सेटिलमेन्ट की उक्त गलती के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहा है। अप्रार्थीगण अपनी बेजा हरकतों से जब तक बाज नही आवेगा जब तक कि उसे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही कर दिया जावेगा कि वह प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि से बेदखल नहीं करें। अप्रार्थीगण द्वारा दि० 29.03.2019 को धमकी दी है कि वह पुलिस इमदाद से प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर देंगे तथा भूमि पर मन्दिर का कब्जा करवा देंगे। सेटिलमेंट द्वारा की गई उक्त गलती की प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी। सेटिलमेंट के उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 29.03.2019 को अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी देने से हुई है। प्रार्थीगण का प्राईमा फेसी केस पूर्णतया साबित है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में भी संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह ताफैसला दावा प्रार्थीगण को भूमि हाल खसरा नंबर 920 रकबा 0.30 हैक्टर, 921 रकबा 0.60 हैक्टर वाके ग्राम खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी में न तो स्वयं बाधा पैदा करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय

काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ने अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाना स्वीकार है शेष स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निहायत कमजोर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 2 जिस प्रकार लिखा है गलत है व स्वीकार नहीं है। वर्णित खसरा नंबरान के राजस्व रिकार्ड की स्थिति मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अंकन की हद तक स्वीकार है। संवत् 2008 में वादग्रस्त भूमि में उप कृषक के रूप में प्रार्थी संख्या 1 के पिता तथा प्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 के बाबा कन्हैया पुत्र पांच्या माली निवासी खानपुर बडौदा का उप कृषक होना स्वीकार नहीं है। हमेशा से वादग्रस्त भूमि मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज की खातेदारी की रही है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। स्पष्टीकरण विशेष विवरण में अंकित है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 3 गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। संवत् 2012 में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 का लागू होना स्वीकार है। उक्त अधिनियम के तहत जागीरदारों की भूमि राज्य द्वारा पुनर्ग्रहण की गई है परन्तु धार्मिक संस्थाओं की भूमि का राजस्थान सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण नहीं किया गया है अपितु धार्मिक संस्थाओं में या मूर्ति मंदिर की माफी की भूमियों को सरकार द्वारा निश्चित लगान देय निर्णित किया गया है तथा लगान अदा करने के प्रतिफलार्थ धार्मिक संस्थाओं व मंदिरों को वार्षिक शाश्वती (एन.यू.टी.) दिया जाना उक्त अधिनियम में प्रावधित किया गया है जिसके अनुरूप ही धार्मिक संस्थाओं व मंदिरों को (एन.यू.टी.) प्राप्त होती है। मंदिरों की माफी की भूमि को मूर्ति मंदिर को शाश्वत नाबालिग मानते हुए अन्तरण योग्य प्रतिबंधित भूमि होना विनिश्चित किया गया है तथा मंदिर माफी की भूमियों पर मूर्ति शाश्वत नाबालिग का ही विधिक कब्जा होना भी विनिश्चित किया गया है। माफी मंदिर की भूमियों पर किसी भी व्यक्ति का खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि अनुसार प्रतिबंधित किया गया है। चूंकि मूर्ति मंदिर विधि अनुसार शाश्वत नाबालिग है जो स्वयं की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमियों को आध बंटाई पर या मजदूरों से काश्त करवाता रहा है। उक्त आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकित किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। कथित व्यक्ति कन्हैया पुत्र पांच्या द्वारा भी मूर्ति शाश्वत नाबालिग की ओर से मूर्ति की भूमि को आध बंटाई पर काश्त किया गया है, उक्त आधार पर यदि राजस्व रिकार्ड में बंटाईदार का नाम अंकित भी हो गया है तो वह मूर्ति शाश्वत नाबालिग के प्रति प्रभावहीन है। प्रार्थना पत्र अस्थाई

निषेधाज्ञा का मद संख्या 4 जिस प्रकार लिखा है गलत है व स्वीकार नहीं है। वर्णित भूमि के एकीकरण में खसरा नंबर 419 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा राजस्व रकार्ड के अनुसार तथ्यात्मक है। भूमि मूर्ति मंदिर की खातेदारी व कब्जे काशत की रही है। जिस पर कन्हैया पुत्र पांच्या की खातेदारी प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 5 गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। हाल खसरा नंबर 920 रकबा 0.30 हैक्टर, 921 रकबा 0.61 हैक्टर विधि अनुसार सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा मिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 मूर्ति मंदिर की खातेदारी में अंकित किया है। चूंकि उक्त भूमि प्रारंभ से ही मूर्ति मंदिर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जे काशत की रही है। कथित उप कृषक का मूर्ति की भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध विधि अनुसार नहीं है। मिन जवाबदार शंकर लाल दत्तक पुत्र माखनदास मूर्ति मंदिर श्री गोविन्द देव जी का विधि अनुसार संरक्षक व पुजारी है। मूर्ति मन्दिर की भूमि को सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा नियमानुसार ही मूर्ति मंदिर की खातेदारी में दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का ही नियमानुसार कब्जा काशत है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 6 उपरोक्त जवाब के अनुसार स्वीकार नहीं है। एकीकरण खसरा नंबर 290 से वर्तमान सेटिलमेन्ट में नये नंबर 678 व 296/2 से नये नंबर 675 रकबा 0.43 हैक्टर कायम होना राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का वैध कब्जा नहीं है। विधि अनुसार वादग्रस्त भूमि मिन जवाबदार की खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 7 उपरोक्त जवाब अनुसार जिस प्रकार लिखा है गलत है व स्वीकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि विधि अनुसार सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा मिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 मूर्ति मंदिर की खातेदारी में अंकित किया है। चूंकि उक्त भूमि प्रारंभ से ही मूर्ति मंदिर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जे काशत की रही है। कथित उप कृषक मूर्ति की भूमि से किसी प्रकार को कोई संबंध विधि अनुसार नहीं है। मिन जवाबदार शंकर लाल दत्तक पुत्र माखनदास मूर्ति मंदिर श्री गोविंद देव जी का विधि अनुसार संरक्षक व पुजारी है। मूर्ति मंदिर की भूमि को सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा नियमानुसार ही मूर्ति मंदिर की खातेदारी में दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का ही नियमानुसार कब्जा काशत है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 6 जिस प्रकार लिखा है गलत है व स्वीकार नहीं है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग की कृषि भूमि विधि अनुसार मूर्ति की ही कब्जे

काशत की भूमि है। मूर्ति की इच्छा के विरुद्ध भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा अतिक्रम की हैसियत का माना जाता है। मूर्ति की जमीन पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा बनाये रखने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण न तो मूर्ति को भूमि की उपज का आध बंटवाई का हिस्सा देते हैं और न ही भूमि से मूर्ति को लाभान्वित होने देना चाहते हैं अपितु भूमि पर अवैध कब्जा कर भूमि को अवैध रूप से भूखंडों की शक्ल में विक्रय करने व निर्माण करने पर उतारू हो रहे हैं। प्रार्थीगण का कृत्य विधि विरुद्ध है जिसके संदर्भ में मिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण को भूमि से वेदखल करने के लिए काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 7 जिस प्रकार लिखा है गलत है व स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं है। इसके विपरीत मिन जवादार अप्रार्थी संख्या 2 का काउण्टर क्लेम बाबत रिसीवरी प्रथम दृष्टया बखूबी साबित है। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 8 जिस प्रकार लिखा है गलत है व स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए उसके पक्ष में किसी प्रकार का सुविधा का संतुलन नहीं है बल्कि यह बिन्दु मिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में साबित है। प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का मद संख्या 9 जिस प्रकार लिखा है गलत है व स्वीकार नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए उसके पक्ष में किसी प्रकार की अपूर्ण्य क्षति का बिन्दु प्रमाणित नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से उसके पक्ष में ऐसी कोई क्षति होने वाली नहीं है कि जिसकी पूर्ति उसको द्रव्य से नहीं करवाई जा सके। यह बिन्दु मिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में साबित है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व्यय सहित खारिज किए जाने योग्य है। विशेष विवरण में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 920 रकबा 0.30 हैक्टर, 921 रकबा 0.61 हैक्टर स्थित खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मूर्ति मंदिर श्री गोविंद देव जी अप्रार्थी संख्या 2 की कब्जे काशत की भूमि है। उपरोक्त वर्णित भूमि सदैव से गैर सायल संख्या 2 मूर्ति मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज की खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि रही है। अप्रार्थी संख्या 2 शाश्वत नाबालिग है जो उपरोक्त भूमि को कभी आध बंटवाई पर और कभी मजदूरी पर विभिन्न लोगों से काशत करवाते रहे हैं तथा भूमि की काशत की उपज से शाश्वत नाबालिग मूर्ति मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज की भोगराग व सेवा पूजा की व्यवस्था वाद मित्र

संरक्षक व पुजारी शंकर लाल पुत्र माखनदास द्वारा जमाने बुजुर्गान से की जाती रही है । जमींदारी उन्मूलन से पूर्व माफी की भूमियों बावत् रियासती कानून प्रभावी थे। जमींदारी पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत राजस्थान राज्य की नीति अनुसार सभी भूमि राज्य के नियंत्रण में रखी गई तथा कृषकों को सीमित अधिकार प्रदान करते हुए खातेदारी अधिकार दिए गए। धार्मिक संस्थाओं व मूर्तियों की भूमियों को भी उक्त क्रम में सरकारी नियंत्रणाधीन किया गया तथा उक्त भूमि लगान देय हो गई परन्तु रियासत काल में मंदिरों की भूमियों पर किसी प्रकार का लगान देय नहीं था। लगान माफ होने के कारण भूमियों को माफी की भूमि से संबोधित किया जाता था। उक्त रियासती प्रथा के अनुरूप ही राजस्थान राज्य द्वारा राज्य सरकार के अधीन मूर्ति मंदिर की भूमियों के लिए जाने के परिणामस्वरूप देय लगान की राशि धार्मिक संस्थान व मंदिरों वार्षिक शाश्वती (एन.यू.टी) के रूप में देना निश्चित किया गया तथा मंदिर की भूमियों को विशेष श्रेणी की भूमि घोषित किया गया। मूर्ति को शाश्वत नाबालिग घोषित करते हुए उसकी कृषि भूमि भूमियों पर मूर्ति का शाश्वत नाबालिग होने के आधार पर विधि अनुसार मूर्ति का ही कब्जा होना माना गया। चूंकि मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, इसलिए मूर्ति द्वारा स्वयं भी भूमियों को आध बटाई पर या मजदूरों द्वारा काशत करवाया जाता रहा है। आध बटाई व मजदूरों का मूर्ति की भूमि पर किसी भी प्रकार के कब्जे के आधार पर किसी प्रकार का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। विशेष विवरण के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में से वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 920 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 921 रकबा 0.61 हैक्टेयर को पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज आध बटाई पर काशत करते रहे तथा उपज का आधा भाग नियमानुसार मूर्ति मंदिर को अदा करते रहे जिससे मूर्ति मंदिर के भोगराग की व्यवस्था होती रही। प्रार्थीगण के पूर्वजों का निधन हो चुका है। विगत कुछ वर्षों से प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त हाल खसरा नंबर 920 रकबा 0.30 हैक्टर, 921 रकबा 0.61 हैक्टैयर स्थित ग्राम खानपुर बडौदा की कृषि उपज में से आधा भाग मिन जवाबदार गैरसायल संख्या 2 मूर्ति को देना बंद कर दिया तथा मूर्ति की इच्छा के विरुद्ध उक्त खसरा नंबर पर प्रार्थीगण अपना अवैध कब्जा किए हुए है जो अतिक्रमण की परिभाषा का है। उक्त भूमि को प्रार्थीगण विधि विरुद्ध तरीके से भूखण्डों की शक्ल में विक्रय करने व अवैध निर्माण भी प्रारंभ किया गया जिसकी शिकायत होने पर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है। वादग्रस्त भूमि को बदनियतिपूर्वक हडप करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत वाद विधि विरुद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है जिसकी सूचना

रामकिशन वगैरा बनाम सरकार जरिए लैण्ड होल्डर वगैरा, प्रा0पत्र टी0आई0

(07)

उपरान्त अप्रार्थी संख्या 2 मूर्ति गोविंद देव जी महाराज के संरक्षक शंकर लाल द्वारा दिनांक 08.09.2019 को प्रार्थीगण से वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 920 रकबा 0.30 हैक्टर, 921 रकबा 0.61 हेक्टेयर स्थित ग्राम खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी पर से अपना अतिक्रमण हटाकर तथा मौजूदा निर्माण हटाकर भूमि पुनः मंदिर को संभलाये जाने बाबत कहा तो प्रार्थीगण ने इन्कार कर दिया तथा भूमि पर से कब्जा हटाने से मना करते हुए उपज का आधा हिस्सा देने से भी मना किया साथ ही भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को हटाने से भी इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का कब्जा अतिक्रमण की हेसियत का बन गया है। प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से वेदखल करने हेतु तथा अप्रार्थी संख्या 2 का भूमि पर दखल करवाये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को काउन्टर क्लेम किया जाना आवश्यक हुआ है। इसलिए मूल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में काउन्टर क्लेम किया जा चुका है। प्रार्थीगण विधि विरुद्ध तरीके से शाश्वत नावालिक मूर्ति मंदिर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि को निरन्तर खुर्द बुर्द कर रहे हैं तथा मिन जवाबदार को कृषि भूमि की उपज से महरूम रखे हुए है। मिन जवाबदार के हितों की सुरक्षार्थ वादग्रस्त भूमि ताफैसला मूल वाद कब्जे राज में लिया जाना आवश्यक है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवर्ष रिसीवर नियुक्त कर जरिये रिसीवर काशत करवाया जाना आवश्यक है। इस उदेश्य से हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत रिसीवर काउन्टर क्लेम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम बाबत रिसीवर प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा मिन जवाबदार अप्रार्थी संख्या 2 के रिसीवरी का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 920 रकबा 0.30 हैक्टर, 921 रकबा 0.61 हैक्टर स्थित खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी को अविलम्ब कब्जे राज में लिया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी को रिसीवर नियुक्त कर काशत व्यवस्था करवाई जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन ने प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल खतौनी एकीकरण, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, फोटोकोपी नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2014 से 2017, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2030 से 2033, फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सं0 2015, फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सं0 2012 से 2014, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 217 पेश की है।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 2 ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष के विद्वान वकीलों ने अपनी अपनी लिखित बहस भी प्रस्तुत की है जो पत्रावली पर उपलब्ध है।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तथ्य अंकित किया है कि मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज की खातेदारी भूमि बन्दोवस्त सं० 2008 से 2011 ख०नं० 761 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, ख०नं० 815/2 रकबा 13 बिस्वा, ख०नं० 818 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा ग्राम खानपुरबडौदा में स्थित रही है। जिस पर उप कृषक के रूप में प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 ता 10 के बाबा कन्हैया पुत्र पांच्या का कब्जा काश्त दर्ज था। एकीकरण सं० 2018 में उक्त भूमि के ख०नं० 419 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा तथा वर्तमान भू-प्रबन्ध में नवीन ख०नं० 920 रकबा 0.30 है०, ख०नं० 921 रकबा 0.61 है० कायम किए गए हैं। जागीर पुनर्ग्रहण के समय इस भूमि को राज्य सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण कर लिया गया तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत भूमि की खातेदारी प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 ता 10 के बाबा कन्हैया पुत्र पांच्या के नाम दर्ज कर दी गई। खसरा गिरदावरी सं० 2008 से 2034 तक लगातार भूमि पर कब्जा काश्त कन्हैया पुत्र पांच्या का उनके मरने के बाद प्रार्थीगण का दर्ज रहा है लेकिन सेटलमेंट के दौरान यह भूमि गलत रूप से मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज के नाम दर्ज कर दी गई है। भूमि पहले मंदिर के नाम थी लेकिन 1952 में खालसा दर्ज कर दी व मंदिर के हक में एनयूटी जारी कर दी। चूंकि 1952 में प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 ता 10 के बाबा कन्हैया पुत्र पांच्या भूमि के उप कृषक थे इसलिए उन्हें जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत सही रूप से खातेदारी दी गई लेकिन गलती से सेटलमेंट विभाग ने भूमि मंदिर के नाम दर्ज कर दी जबकि भूमि पर कब्जा वर्तमान में भी प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है। मंदिर के पुजारी की नियत खराब है, वह प्रार्थीगण से रूपए ऐंठना चाहता है इसलिए उसने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर भूमि रिसीवरी में लेने की इस्तदुआ की है जो नितान्त गलत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय डी०एन०जे० 2021 वाल्यूम 3 पेज 946 में यह मत प्रतिपादित किया है कि एक कब्जेधारी व्यक्ति को रिसीवर की आड में बेदखल नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण की भूमि गलत रूप से सेटलमेंट विभाग वालों ने मंदिर के नाम दर्ज कर दी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दि० 24.5.2007, दि० 6.1.2010 एवं

दिनांक 25.11.2011 को सर्कुलर जारी किए गए हैं जिनमें आदेश दिया गया है कि यदि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के समय भूमि पर खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार पट्टेदार एवं उपकृषक के रूप में पुजारी के अलावा किसी तृतीय पक्ष का कब्जा है तथा उक्त भूमि खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार, उपकृषक के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे पुनः मंदिर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। यह भूमि सं0 2012 में उपकृषक के रूप में प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 ता 10 के बाबा कन्हैया पुत्र पाच्या के नाम दर्ज थी इसलिए उसे सही रूप से खातेदारी दी गई थी इसके बाबजूद भी सेटलमेंट विभाग वालों ने बिना किसी सक्षम आदेश के भूमि को मंदिर के नाम दर्ज कर दिया। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की लार्जर बेंच ने आर0आर0डी0 2015 पेज 456 में तारा एण्ड 35 अदर्स रिट याचिकाओ को निस्तारित करते हुए 15-7-2015 को निर्णय पारित किया है कि यदि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के बाद भूमि मंदिर की खुदकाशत के रूप में दर्ज है तथा उसकी खातेदारी पुजारी के नाम हो जाती है तो उसे पुजारी के नाम से निरस्त कर पुनः मंदिर के नाम दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि यह भूमि मंदिर की खुदकाशत मानी जावेगी लेकिन जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के समय या बाद में भूमि पर तृतीय पक्ष खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार या उप कृषक के रूप में दर्ज है तथा खातेदारी उस व्यक्ति के पक्ष में दर्ज कर दी गई है तो उक्त भूमि को वापस मंदिर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। यदि सेटलमेंट विभाग वालों द्वारा ऐसी भूमि को दौराने सेटलमेंट मंदिर के नाम दर्ज कर दी जाती है तो राजस्व अधिकारियों की जानकारी में आते ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007, 2010, 2011 में जारी सर्कुलरों के अनुसार दुरुस्ती के लिए कार्यवाही कर खातेदारी उक्त व्यक्ति के नाम दर्ज कर देनी चाहिए। प्रार्थीगण के इस केस में लैण्ड होल्डर द्वारा सेटलमेंट कर्मचारियों की गलती अवश्य मानी है लेकिन दुरुस्ती की कोई कार्यवाही लैण्ड होल्डर द्वारा नहीं की गई है। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी आर0आर0डी0 2015 पेज 370 पर रेफरेन्स की कार्यवाही के दौरान यही मत प्रतिपादित किया है कि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत प्रदान की गई खातेदारी को मंदिर द्वारा उस समय चैलेन्ज नहीं किया गया इसलिए भूमि को रेफरेन्स की कार्यवाही में खातेदार के नाम से निरस्त कर मंदिर के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। आर0आर0डी0 2015 पेज 91 में भी राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यही मत प्रतिपादित किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 ता 10 के बाबा कन्हैया पुत्र पाच्या को

उनके कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान की गई थी, सेटलमेंट विभाग द्वारा उसे गलत रूप से मंदिर के नाम दर्ज कर दिया ऐसी स्थिति में तहसीलदार व मंदिर को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काशत में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें, प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल नहीं करें तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने के उद्देश्य से रिसीवर का प्रार्थना पेश किया है उसे खारिज किया जावे। अप्रार्थी मंदिर की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर आपत्ती जताते हुए प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया है कि अप्रार्थी का यह कथन नितान्त गलत है कि उक्त भूमि खतौनी एकीकरण बन्दोवस्त इत्यादि में मंदिर के नाम दर्ज है जबकि भूमि सं० 2012 से प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 ता 10 के बाबा कन्हैया पुत्र पांच्या के नाम उपकृषक के रूप में दर्ज है। खसरा गिरदावरी सं० 2008 से 34 तक लगातार कब्जा काशत कन्हैया के नाम दर्ज है तथा सं० 2014 से कन्हैया की खातेदारी में दर्ज है। कन्हैया के मरने के बाद प्रार्थीगण के नाम दर्ज रही है। हलका पटवारी द्वारा दिनांक 31.1.19, 23.6.12, 11.7.17 को प्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई रिपोर्ट नितान्त गलत है क्योंकि जबाब दावे में स्वयं लैण्ड होल्डर जबाब प्रस्तुत कर चुके हैं कि उक्त भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के बाद से ही प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रही है लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा उसे गलत रूप से मंदिर के नाम दर्ज कर दिया है। इससे साफ जाहिर है कि हलका पटवारी द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत भी की गई है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि लैण्ड होल्डर स्वयं अपने जबाब दावे में भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी की होना बता रहा है। लिखित बहस में अप्रार्थी ने आपत्ती ली है कि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग माना जाता है, उसकी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते, अप्रार्थी की यह बात सही है परन्तु प्रार्थीगण का केस अलग श्रेणी का है क्योंकि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत भूमि पुनर्ग्रहण कर खालसा दर्ज कर दी गई एवं उस समय कन्हैया के उपकृषक होने के नाते भूमि कन्हैया के नाम दर्ज कर दी गई इसलिए इस भूमि को मंदिर की नहीं माना जा सकता। अप्रार्थी मंदिर की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त इस केस पर चस्पा इसलिए नहीं होते हैं कि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत भूमि प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 ता 10 के बाबा कन्हैया पुत्र पांच्या की खातेदारी में दर्ज कर दी गई तथा अप्रार्थी मंदिर की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि भूमि पुजारी के नाम दर्ज कर दी गई थी जिसे मंदिर के नाम दर्ज किया जावे। इस

तथ्य को दि० 24.5.2007, 6.1.2010, 25.11.2011 के सर्कुलर एवं राजस्थान हाईकोर्ट की लार्जर बेंच द्वारा पारित जजमेंट आर०आर०डी० 2015 पेज 456 एवं राजस्व मण्डल के अन्य निर्णयो में प्रतिपादित किया है कि पुजारी के अलावा अन्य तृतीय पक्षकार के हक में दिए गए खातेदारी अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता, धारा 21, 22 व 26 इस केस में लागू नहीं होती है क्योंकि दि० 22.12.1958 को जागीर कमिश्नर द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी कि जिन जागीरदारों ने मुआवजा प्राप्त नहीं किया है वे 15 फरवरी 1959 तक या उसके बाद मुआवजा राशि बोण्ड में लेनी है, नकद लेनी है तथा लगान की एवज में मुआवजा राशि का जमा खर्च कराना चाहे तो अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित अधिकारियों के पास शीघ्र पेश कर दें। जब मुआवजा राशि का निर्धारण 15 फरवरी 1959 तक हो गया तो अब मुआवजा राशि निर्धारण का बिन्दु 70 साल के लम्बे अन्तराल के बाद नहीं उठाया जा सकता। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अंकन नहीं किया गया है कि उनके द्वारा मुआवजे के सम्बन्ध में कोई आपत्ती की गई हो तथा अदालत द्वारा उनके पक्ष में कोई निर्णय पारित किया गया हो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस से प्रार्थीगण के हितों पर कोई असर नहीं पड़ता है। सन् 2021 का जो सर्कुलर अप्रार्थी द्वारा पेश किया गया है वह इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है क्योंकि उक्त सर्कुलर मंदिर की भूमि पर नवीन किए गए अतिक्रमण के सम्बन्ध में है जबकि प्रार्थीगण की भूमि मंदिर की नहीं है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिसीवरी हेतु काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काशत में व्यवधान पैदा नहीं करें एवं प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल नहीं करें।

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान वकील ने अपने जबाब तथा काउन्टर क्लेम के अनुरूप बहस की एवं लिखित बहस प्रस्तुत की। लिखित बहस में अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी मंदिर श्री गोविन्द देव जी की खातेदारी भूमि ख०नं० 920, 921 ग्राम खानपुरबडौदा पर स्वयं को उपकृषक बताते हुए पुराने कब्जे के आधार पर घोषणां खातेदारी का दावा व दावे के साथ यह टी०आई० प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। टी०आई० प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने केवल लैण्ड होल्डर को पक्षकार बनाया है एवं मंदिर के हितों को देखते हुए अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर टी०आई० प्रार्थना पत्र में मंदिर को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया जिस पर न्यायालय द्वारा मंदिर को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी मंदिर की ओर से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में टी०आई०

प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण का टी०आई० प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया है एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए भूमि को रिसीवरी में लेने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में सुसंगत दस्तावेज सं० 2003 से वर्तमान तक की जमाबंदियां, मिलान क्षेत्रफल, खतौनी एकीकरण व बंदोवस्त प्रस्तुत की गई है जिनमें वादग्रस्त भूमि प्रारम्भ से ही अप्रार्थी मंदिर की खातेदारी व कब्जे की होना प्रमाणित है। वादग्रस्त भूमि को खुर्दबुर्द करने के क्रम में हलका पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 10.11.2017, 19.1.2021, 5.10.2018 एवं तहसीलदार गंगपुर सिटी के यहां से जारी नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत की गई है जिनके आधार पर यह प्रमाणित है कि प्रार्थीगण अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भूमि को खुर्द बुर्द कर रहे हैं तथा कृषि भूमि का स्वरूप बदल कर भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने दावा व टी०आई० प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग की श्रेणी में आता है जिसकी सम्पत्ति किसी भी रूप में अन्तरण योग्य नहीं है। मंदिर की भूमि पर यदि किसी व्यक्ति का किसी भी रूप में कब्जा भी है तो वह कब्जा मंदिर का ही माना जाता है। मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। न्याय दृष्टान्त आर०आर०टी० 2021(2) पेज 1322 पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपना न्यायिक दृष्टिकोण प्रकट किया है जिसमें मंदिर की खुदकाशत भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। आर०आर०डी० 2018 पेज 235 पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की दो सदस्यों की बेंच ने प्रतिपादित किया है कि राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत मंदिर की जमीन पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। आर०आर०टी० 2018(1) पेज 541 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की दो सदस्यों की बेंच ने प्रतिपादित किया है कि सं० 2012 से 2015 की जमाबंदी में मंदिर की खातेदारी व कब्जा काशत दर्ज है, खुदकाशत भूमि पुनर्ग्रहित नहीं थी, पुजारी भूमि के हस्तान्तरण हेतु सक्षम नहीं था, मंदिर शाश्वत नाबालिग है। इन न्यायिक दृष्टान्तों से यह प्रमाणित है कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर कोई व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। मूर्ति मंदिर की इच्छा के विरुद्ध भूमि पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसा कब्जा अस्तित्व में होने पर वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है जिसमें बेदखली की डिफ्री पारित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी मंदिर की ओर से कायमी रिसीवर हेतु काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। रिसीवर कायम करने के सम्बन्ध में न्याय दृष्टान्त आर०आर०टी०

2014(2) पेज 1317 में अवधारित किया है कि मूर्ति शाश्वत नाबालिग है और उसके हितों की रक्षार्थ रिसीवर कायम किया जाना आवश्यक है। न्याय दृष्टान्त आर०आर०टी० 2011(2) पेज 979 में प्रतिपादित किया गया है कि मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को इस पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते, हस्तान्तरण अथवा भूमि को खुर्द-बुर्द करने का आशंका पर भूमि पर रिसीवर कायम करना न्यायोचित माना है। न्याय दृष्टान्त आर०बी०जे० 2008 पेज 628 पर यह प्रतिपादित किया गया है कि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है, उसकी भूमि की सुरक्षार्थ रिसीवर नियुक्त किया जाना ही एकमात्र उपचार है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय समय पर मूर्ति मंदिर की भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाने बाबत अधिसूचनाएँ प्रदेश के समस्त जिलाकलेक्टरों व अन्य सक्षम अधिकारियों को जारी की गई है। इस क्रम में परिपत्र क्रमांक प 1(2)राज० 6/200/पार्ट दिनांक 20.8.2022 व क्रमांक प 3(10)राज-6/2021 दिनांक 6.7.2021 सुसंगत व प्रभावी है। इसलिए मंदिर की भूमि की सुरक्षार्थ इस पर रिसीवर कायम किया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि मूर्ति मंदिर श्री गोविन्द देव जी महाराज की वादग्रस्त कृषि भूमि व अन्य कृषि भूमि स्थित खानपुरबडौदा के सम्बन्ध में आम जन द्वारा श्री शिकायतें विभिन्न उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त लोकायुक्त सचिवालय जयपुर में भी कार्यवाही विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण में यह आधार लिया है कि सं० 2012 में जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत भूमि को खालसा दर्ज कर राज्य सरकार द्वारा मंदिर के हक में मंदिर के भोग विलास व खर्चों के लिए एनयूटी जारी कर दी गई तथा भूमि का खातेदार प्रार्थीगण के पिता सुगन की दर्ज कर दी जिसे जीवन पर्यन्त वे काश्त करते रहे व उनके मरने के बाद बतौर खातेदार प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने इन प्रावधानों को गलत विवेचित किया है। धारा 9 के अनुसार जागीर भूमियों के प्रत्येक काश्तकार को इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेख में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर नीहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और ऐसी खुदकाश्त के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेंगे। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने स्वयं को धारा 9 के प्रभाव से ही स्वयं को खातेदार होना बतलाया है परन्तु वे वादग्रस्त मंदिर की भूमि पर कभी खातेदार, पट्टेदार या खादिमदार के रूप में दर्ज नहीं रहे हैं और न ही वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इनको आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण

के अधिकार कभी प्राप्त रहे हैं। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 21, 22 जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण के प्रावधान करती है। उक्त अधिनियम की धारा 26 जागीरदारों की जमीन का पुनर्ग्रहण के परिणामस्वरूप मुआवजे के लिए प्रावधान करती है। चूंकि एन्यूटी धार्मिक संस्थाओं की भूमि को पुनर्ग्रहण करने के परिणामस्वरूप अदा किए जाना वाला वार्षिक मुआवजा मात्र है परन्तु उक्त आधार पर जागीरदार के अधिकार यथा मूर्ति मंदिर के अधिकार सम्बन्धित भूमि से समाप्त नहीं होते। उक्त तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण का कोई वास्ता नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि की सुरक्षार्थ भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त कृषि भूमि के सन्दर्भ में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर अप्रार्थी मूर्ति का काउन्टर वलेम बाबत् कायमी रिसीवर स्वीकार फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का आदरपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं० 2014 से 2017 में भूमि की खातेदारी माफी मंदिर श्री गोविन्द देव जी पुजारी माखनदास चेला लाडलीदास ब्राह्मण निवासी चूली माफीदार के नाम दर्ज है परन्तु कृषक के रूप में कन्हैया पुत्र पांच्या माली का नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सं० 2020 से 2023 में भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है परन्तु कृषक के रूप में कन्हैया पुत्र पांच्या माली का नाम दर्ज है। नकल खतौनी एकीकरण सं० 2016 में वादग्रस्त भूमि कन्हैया पुत्र पांच्या माली की खातेदारी में दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सं० 2015 में कन्हैया पुत्र पांच्या माली का नाम उप कृषक के रूप में दर्ज है। गिरदावरी सं० 2012 से 2015 में भी कन्हैया पुत्र पांच्या माली का नाम कृषक के रूप में दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काशत चला आ रहा है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में कब्जा देखा जाता है एवं प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वजों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 ने वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया है परन्तु खातेदारी दर्ज होने के कारण वादग्रस्त भूमि पर कब्जाधारी प्रार्थीगण को रिसीवरी की आड में भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। यही सिद्धान्त प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त डी०एन०जे० 2021 वाल्यूम 3 पेज 946, आर०बी०जे० (25) 2018 पेज 562 में माननीय अपर न्यायालयों

रामकिशन वगैरा बनाम सरकार जरिए लैण्ड होल्डर वगैरा, प्रा०पत्र टी०आई०

(15)

द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत अधिकांश न्याय दृष्टान्त मूल वाद से सम्बन्धित तथ्यों के हैं जो वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बाबत कायमी रिसीवर खारिज किया जाता है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि ख०नं० 920 रकबा 0.30 है० व ख०नं० 912 रकबा 0.60 है० ग्राम खानपुरबडौदा की मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें एवं वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)